



चार अंश, दशमलव, कोष्ठक के साथ संचालन का क्रम

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$(4.6 - 4) \times 3 + 2.2 =$$

$$4(3.8 - 4.4) \div 2 \times 5 + \frac{1}{2} =$$

$$4(3.4 + \frac{3}{4}) \div 2 \times 2 - \frac{1}{5} =$$

$$3.1 \times 20 \div 5 + 2(\frac{1}{4} - 2) =$$

$$\frac{1}{2} \times 10 \div 2 + 3(2.3 - 2.8) =$$

$$15(\frac{1}{2} - 3.6) \div 3 \times 5 - \frac{3}{5} =$$

$$\frac{2}{3} - 3(\frac{1}{4} + \frac{2}{3}) =$$

$$(\frac{1}{5} + \frac{3}{5}) \times 2 - 2.5 =$$

$$3.1 + 4(2.8 - \frac{2}{5}) =$$

$$6(2.1 - \frac{2}{5}) \div 2 \times 3 + 5.4 =$$



नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$(4.6 - 4) \times 3 + 2.2 = 4$$

$$4(3.8 - 4.4) \div 2 \times 5 + \frac{1}{2} = \left(-\frac{11}{2}\right) = \left(-5\frac{1}{2}\right)$$

$$4\left(3.4 + \frac{3}{4}\right) \div 2 \times 2 - \frac{1}{5} = \frac{82}{5} = 16\frac{2}{5}$$

$$3.1 \times 20 \div 5 + 2\left(\frac{1}{4} - 2\right) = \frac{89}{10} = 8\frac{9}{10}$$

$$\frac{1}{2} \times 10 \div 2 + 3(2.3 - 2.8) = 1$$

$$15\left(\frac{1}{2} - 3.6\right) \div 3 \times 5 - \frac{3}{5} = \left(-\frac{781}{10}\right) = \left(-78\frac{1}{10}\right)$$

$$\frac{2}{3} - 3\left(\frac{1}{4} + \frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{25}{12}\right) = \left(-2\frac{1}{12}\right)$$

$$\left(\frac{1}{5} + \frac{3}{5}\right) \times 2 - 2.5 = \left(-\frac{9}{10}\right)$$

$$3.1 + 4\left(2.8 - \frac{2}{5}\right) = \frac{127}{10} = 12\frac{7}{10}$$

$$6\left(2.1 - \frac{2}{5}\right) \div 2 \times 3 + 5.4 = \frac{207}{10} = 20\frac{7}{10}$$